

MISSING NUMBER

1.

7	5	24
1	3	8
5	3	?

$$7^2 = 49 - 25 \rightarrow$$

$$2 \times (1 + 3) = 8$$

$$25 - 9 \Rightarrow 16$$

$$7 + 5 = 12 \times 2 = 24$$

$$1 + 3 = 4 \times 2 = 8$$

$$5 + 3 = 8 \times 2 = 16$$

(A) 40

(B) 8

(C) 10

(D) 16



BY : - Manish Sir

MISSING NUMBER

2.

8	16	?
6	10	14
2	4	12

18

easy

High level
Think



(A) 1

(B) 17

(C) 19

(D) 18

BY : - Manish Sir



MISSING NUMBER

3.

3	6	4
5	?	4
8	10	8

$$8 - 3 = \textcircled{5}$$

$$8 - 4 = \textcircled{4}$$

$$10 - 6 = \textcircled{4} \text{ Ans}$$

(A) 4

(B) 8

(C) 9


(D) 6



BY : - Manish Sir

MISSING NUMBER

4.



- (A) 121
- (B) 216
- (C) 139
- (D) 141



BY : - Manish Sir

MISSING NUMBER

5.

17 +	8 =	5	5
13	7	5	4
6	12	6	3
10	6	4	?

$$17 + 8 = \frac{25}{5} = 5$$

$$13 + 7 = \frac{20}{5} = 4$$

$$10 + 6 = \frac{16}{4} = 4$$

(A) 4

(B) 5

(C) 6

(D) 7



BY : - Manish Sir

MISSING NUMBER

6.

9	6	7
8	?	3
3	5	8
216	900	168

$$6 \times 5 = 30 \times 30 = 900$$

- ✓ (A) 30
- (B) 55
- (C) 60
- (D) 70



BY : - Manish Sir

MISSING NUMBER

7.

4	15	35
13	21	42
9	6	?

$$9 + 4 = 13$$

$$15 + 6 = 21$$

$$35 + 7 = 42$$

(A) 12

(B) 11

(C) 15


(D) 7



BY : - Manish Sir

MISSING NUMBER

8.



(A) 32

(B) 26

(C) 36


(D) 24



BY : - Manish Sir

MISSING NUMBER

9.





- ✓ (A) 9
- (B) 18
- (C) 24
- (D) 27

BY : - Manish Sir



10. नीचे दिये गये चित्र में लुप्त संख्या ज्ञात करें-



(A) 76523

✓ (B) 67235

(C) 86723

(D) 65723



11. नीचे दिये गये चित्र में लुप्त संख्या ज्ञात करें-

1	2	3
7	6	8
48	34	?

$$7^2 - 1 = 49 - 1 \Rightarrow \textcircled{48}$$

$$6^2 - 2 = 36 - 2 = \textcircled{34}$$

$$8^2 - 3 = 64 - 3 = \textcircled{61}$$

(A) 62

(B) 60


(C) 61

(D) 64




MISSING NUMBER


12. नीचे दिये गये चित्र में लुप्त संख्या ज्ञात करें-



$$\begin{array}{r} 7 \times 4 = 28 \\ 3 + 5 = +8 \\ \hline \textcircled{36} \end{array}$$



$$\begin{array}{r} 8 \times 7 = 56 \\ 5 + 3 = +8 \\ \hline \textcircled{64} \end{array}$$



$$\begin{array}{r} 6 \times 3 = 18 \\ 6 + 4 = 10 \\ \hline \underline{\underline{28}} \end{array}$$

(A) 25

(B) 27

(C) 49


(D) 28

BY : - Manish Sir



MISSING NUMBER

13. नीचे दिए गए आरेख में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए-



$$\begin{array}{r} 38 \\ + 16 \\ \hline \underline{\underline{54}} \end{array}$$

$$\textcircled{+2^2} \quad \textcircled{\times 2} \quad \textcircled{+3^2} \quad \times 2 \quad \textcircled{+4^2}$$

(A) 45

(B) 61

(C) 31


(D) 54



BY : - Manish Sir

MISSING NUMBER

14. नीचे दिये गये चित्र में लुप्त संख्या ज्ञात करें-



$$4 + 3 = 7$$
$$5 + 1 = 6$$
$$\frac{6}{2} = 3$$

$$7 + 3 = 10$$
$$6 + 2 = 8$$
$$\frac{8}{2} = 4$$

$$12 + 8 = 20$$
$$9 + 8 = 17$$
$$\frac{17}{3} = 5.66$$
$$3^2 = 9$$

(A) 15

(B) 12

(C) 16


(D) 9

BY : - Manish Sir




MISSING NUMBER


15. नीचे दिये गये चित्र में लुप्त संख्या ज्ञात करें-



$$\begin{array}{r} 5 \times 3 = 15 \\ + 4 \\ \hline 19 \end{array}$$



$$\begin{array}{r} 6 \times 4 = 24 \\ + 5 \\ \hline 29 \end{array}$$



$$\begin{array}{r} 12 \times 3 = 36 \\ + 4 \\ \hline 40 \end{array}$$

(A) 42

(B) 28

(C) 26

(D) 40



BY : - Manish Sir

MISSING NUMBER

16. नीचे दिए गए आरेख में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए-

$$\begin{aligned}5 + 13 \\ = 18 - 1 \\ = 17\end{aligned}$$

5	7	9
13	13	13
17	19	?

$$\begin{array}{r}7 \\ + 13 \\ \hline 20 \\ - 1 \\ \hline 19\end{array}$$


$$\begin{array}{r}9 \\ + 13 \\ \hline 22 \\ - 1 \\ \hline 21\end{array}$$

- (A) 21
- (B) 23
- (C) 24
- (D) 27



MISSING NUMBER

17. नीचे दिये गये चित्र में लुप्त संख्या ज्ञात करें-



$$3 \times 2 = \frac{6}{2} = \textcircled{3}$$

$$5 \times 4 = \frac{20}{2} = \textcircled{10}$$

$$6 \times 7 = \frac{42}{2} \Rightarrow 21$$

(A) 27

(B) 24

(C) 21


(D) 25



BY : - Manish Sir

MISSING NUMBER

18. नीचे दिये गये चित्र में लुप्त संख्या ज्ञात करें-



(A) 64

(B) 63

(C) 56

(D) 66



BY : - Manish Sir

MISSING NUMBER

19. नीचे दिये गये चित्र में लुप्त संख्या ज्ञात करें-

3	2
6	-36

-2	-4
3	24

6	7
0	?

$$3 \times 2 \times 6 = 36$$

$$-2 \times -4 \times 3$$

$$24$$

(A) 13

(B) 42

(C) 1

✓ (D) 0



BY : - Manish Sir

MISSING NUMBER

20. नीचे दिये गये चित्र में लुप्त संख्या ज्ञात करें-

$7+8+11+13 \rightarrow 39$

7	8	11	13
6	9	10	14
8	9	10	?

$27 + \bigcirc = 39$

(A) 19

(B) 15

(C) 12


(D) 14



BY : - Manish Sir

MISSING NUMBER

21. नीचे दिये गये चित्र में लुप्त संख्या ज्ञात करें-



(A) 5

(B) 4

(C) 1

(D) 2

BY : - Manish Sir



MISSING NUMBER

22. नीचे दिये गये चित्र में लुप्त संख्या ज्ञात करें-

27	125	8
8	64	6
125	216	?

$$\sqrt[3]{125} \quad \sqrt[3]{216}$$

$$5 + 6 \\ = 11$$

$$\sqrt[3]{27} \quad \sqrt[3]{125}$$

$$3 + 5 = 8$$

$$\sqrt[3]{8} \quad \sqrt[3]{64}$$

$$2 + 4 = 6$$

(A) 10

(B) 14

(C) 11


(D) 9



BY : - Manish Sir

MISSING NUMBER

23. नीचे दिये गये चित्र में लुप्त संख्या ज्ञात करें-



(A) 127

(B) 170

(C) 171

(D) 173



BY : - Manish Sir